



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 127) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-10145/07 का0 806)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

20 फरवरी 2009

श्री ललित नारायण मिश्र, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-569/04, 414/08 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया सम्प्रति उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ ने अपने पत्रांक-5528 दिनांक 19.11.07 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति निर्गत करने में बरती गयी अनियमितता तथा 129 दुकानों की रिवित के विरुद्ध 330 व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने, अनुज्ञप्ति निर्गत करने में जिला स्तरीय चयन समिति को नजर अंदाज करने एवं न वितरण प्रणाली के दुकानों के चयन में रोस्टर प्रणाली को ध्यान में नहीं रखने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मिश्र को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) में निहित प्रावधानों के तहत आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री मिश्र का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. श्री मिश्र को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. श्री मिश्र के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्णय लिया गया है, एतद् संबंधी संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 127-571+10-डी0टी0पी0।